

पाठ-१५

आखिर कितनी जमीन

मौखिक प्रश्न

(क) बड़ी बहन का जीवन कैसा था?

उ०-बड़ी बहन का जीवन ऐशो आराम में बीत रहा था।

(ख) बड़ी बहन की बात सुनकर दीना ने क्या सोचा?

उ०उसने सोचा, बात तो सही है। बचपन से धरती मां की सेवा में जुटे रहे। कभी किसी चीज की परवाह नहीं की।

हमारे पास भी जमीन होती तो अच्छा रहता।

(ग) दीना ने सतलुज पार जाने का निर्णय क्यों लिया?

उ० दीना ने सतलुज पार जाने का निर्णय और अधिक जमीन पाने के लिए लिया

(घ) सौदागर की बातों का दीना पर क्या असर पड़ा?

उ० सौदागर की बातों को सुनकर दीना ने मन ही मन नहीं बस्ती में जाने का फैसला किया।

(ड) दीना ने सरदार को क्या भेंट दी?

उ० दीना ने सरदार को एक बढ़िया कपड़ा, चाय का डिब्बा और मिठाइयां भेंट में दी।

लिखित-

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए-

(क) छोटी बहन को बड़ी बहन की बातें क्यों नहीं अच्छी लगी?

उ० छोटी बहन को बड़ी बहन की बात इसलिए नहीं अच्छी लगी क्योंकि वह अपने सुखमय और ऐशोआराम के जीवन की तारीफ कर रही थी।

(ख) दीना के पड़ोसी उससे क्यों ईर्ष्या करने लगे?

उ० दीना के पड़ोसी उससे इसलिए ईर्ष्या करने लगे, क्योंकि दीना पड़ोसियों के मवेशियों से परेशान था। वे खेत चर जाते थे, अतः उसने तंग आकर अदालत में अर्जी दे दी जिससे उन लोगों को जुर्माना देना पड़ गया।

(ग) दीना कोल सरदार के लिए क्या-क्या उपहार ले गया?

उ० दीना कोल सरदार के लिए एक बढ़िया, कपड़ा चाय का डिब्बा और मिठाइयां उपहार में ले गया।

(घ) कोल अपनी जमीन का उपयोग क्यों नहीं करते थे?

उ० कोल अपनी जमीन का उपयोग इसलिए नहीं करते थे क्योंकि वह मवेशी पालते थे और शिकार करते थे।

(ड) दीना का साथी दौड़कर कर उसे उठाने क्यों आया?

उ० दीना का साथी दौड़कर उठाने इसलिए आया क्योंकि वह गिर कर मर चुका था।

(च) दीना को उसके लालच का क्या फल मिला?

उ० दीना की उसके लालच के कारण मृत्यु हो गई।

(छ) आखिर कितनी जमीन कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है?

उ० आखिर कितनी जमीन कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि अंत समय में कुछ भी काम नहीं आता।

2. आशय स्पष्ट कीजिए-

सरदार के मुंह से निकला-” बस !आखिर कितनी जमीन!”

उ० सरदार के मुंह से निकला -”बस !आखिर कितनी जमीन!” इसका आशय है कि मनुष्य जीवन भर लालच करता है। जमीन जायदाद बनाने के चक्कर में पड़ा रहता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि अंत समय में उसे बस 2 मीटर जमीन चाहिए।

गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए-

”जमीन देख कर दीना की आंखें चमकने लगी। सरदार ने सिर की टोपी उतारकर जमीन पर रख दी और कहा-यह निशान है,

यहां से चलकर सूर्य डूबने से पहले तुम्हें यही वापस आना है।”

(क) जमीन देख कर दीना की आंखें क्यों चमकने लगी?

उ० जमीन देख कर दीना की आंखें इसलिए चमकने लगी क्योंकि इतनी अधिक जमीन उसने पहले देखी नहीं थी वह भी इतनी आसानी से उसे मिलने वाली थी।

(ख) सरदार ने सिर की टोपी उतार कर जमीन पर क्यों रख दी?

उ० सरदार ने सिर की टोपी उतार कर जमीन पर निशान लगाने के लिए रख दी।

(ग) दीना को जमीन क्यों चाहिए थी?

उ० दीना को जमीन इसलिए चाहिए थी क्योंकि उसका लालच बढ़ता जा रहा था।

(घ) सरदार और दीना के बीच कितने रुपयों पर लेन-देन तय हुआ था?

उ० सरदार और दीना के बीच एक हजार रुपयों पर लेन-देन तय हुआ था।